

**DIPLOMA IN WOMEN'S EMPOWERMENT
AND DEVELOPMENT**

Term-End Examination

December, 2016

01305

BWEF-002 : GENDER TRAINING PERSPECTIVES

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks.

1. Discuss Various steps in Training. 20
2. Explain how to overcome constraints in training situations. 20
3. What is gender training ? Explain gender training frameworks in details. 20
4. (a) List methods of training individuals. 10
(b) what are the four Panes in the Johari window ? Explain. 10
5. Discuss Participatory Learning Methods (PALM) 20
6. What are the Projected and Non-Projected training Aids ? Explain various Projected and Non-projected training Aids in detail. 20

7. Define "Training Design". Discuss Various Training Models in relation to Preparation of the Training Design. 20
8. Write Short notes on **any four** of the following : 4x5=20
- (a) Interview
 - (b) Training Need Assessment
 - (c) Individualized Training
 - (d) Conflict Resolution
 - (e) Ice Breaking Games
-

महिला सशक्तिकरण एवं विकास में डिप्लोमा

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2016

बी.डब्ल्यू.ई.एफ.-002 : जेंडर प्रशिक्षण परिप्रेक्ष्य

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. प्रशिक्षण में सम्मिलित विविध चरणों की चर्चा कीजिए। 20
2. प्रशिक्षण-स्थितियों में अवरोधों को कैसे दूर किया जाता है? वर्णन कीजिए। 20
3. जेंडर प्रशिक्षण क्या है ? जेंडर प्रशिक्षण ढाँचों को सविस्तार लिखिए। 20
4. (a) व्यक्ति-विशेषों को प्रशिक्षित करने की विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। 10
(b) जोहरी विंडो के चार खाने कौन से हैं ? वर्णन कीजिए। 10
5. सहभागितापरक अधिगम विधि (पी ए एल एम)की चर्चा कीजिए। 20

6. प्रक्षिप्त और गैर-प्रक्षिप्त प्रशिक्षण सहायक सामग्रियां क्या हैं ? 20
विविध प्रक्षिप्त एवं गैर-प्रक्षिप्त प्रशिक्षण सहायक सामग्रियों को सविस्तार लिखिए।
7. “प्रशिक्षण रूपरेखा” को परिभाषित कीजिए। विविध प्रशिक्षण 20
मॉडलों की चर्चा प्रशिक्षण रूपरेखा निर्माण के संबंध में कीजिए।
8. संक्षेप में किन्हीं चार पर नोट लिखिए। 4x5=20
- (a) इंटरव्यू
 - (b) प्रशिक्षण आवश्यकता निर्धारण
 - (c) व्यक्ति विशिष्ट प्रशिक्षण
 - (d) द्वंद्व का निपटान
 - (e) सुगम पूर्वाभ्यास क्रीड़ाएँ
-